

प्रेस विज्ञप्ति,  
21 जून 2019

पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य में इंडिया ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है. योग, वैलनेस, आध्यात्म और एडवेंचर की राजधानी में स्थित गंगा रिसॉर्ट में इन दिनों ट्रेवल-टूरिज्म उद्योग के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा हुआ है. डेलिगेट्स द्वारा सुबह पवित्र गंगा नदी के तट पर योगाभ्यास किया गया, दिन भर ट्रेवल मार्ट में व्यापारिक आदान-प्रदान के पश्चात संध्या काल में उन्होंने भव्य गंगा आरती में भाग लेकर आध्यात्मिकता की डुबकी लगाई.

राज्य के सचिव पर्यटन, दिलीप जावलकर ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहे इस ट्रेवलमार्ट में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल ऑपरेटर्स उत्तराखंड में मौजूद योग वैलनेस, आध्यात्म और एडवेंचर की अपार संभावनाओं से रूबरू होंगे और राज्य में पर्यटकों का प्रवाह बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग और आध्यात्म का ऐतिहासिक केंद्र रहा है और आवश्यकता इस बात की है कि इस वास्तविकता को देश-विदेश के पर्यटन-प्रेरकों के माध्यम से उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए जो योग, वैलनेस तथा आध्यात्म में रूचि रखता है. यही कारण है कि पर्यटन विभाग द्वारा निरंतर इस प्रकार के आयोजनों में स्थानीय स्टैकहोल्डर्स के साथ प्रतिभाग किया जाता है.

ट्रेवल मार्ट में उत्तराखंड पर्यटन का स्टॉल आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र रहा. योग, आध्यात्म, वैलनेस, एडवेंचर, चार धाम यात्रा तथा लीजर टूरिज्म के विषय में ट्रेवल ऑपरेटर्स द्वारा जानकारी प्राप्त की गई. कुमाऊँ मंडल विकास निगम तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिनिधियों ने देश विदेश के ट्रेवल ऑपरेटर्स को राज्य के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध विविध पर्यटन संभावनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी.

इससे पहले पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव विनोद जुत्शी तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम की महाप्रबंधक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने आयोजन का विधिवत औपचारिक उद्घाटन किया. उद्घाटन समारोह में योग तथा संस्कृति पर आधारित रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया. आयोजक तथा ICM ग्रुप के चेयरमैन अजय गुप्ता ने सभी अतिथियों तथा डेलिगेट्स का विशेष आभार प्रकट किया.

कमल किशोर जोशी,  
जनसंपर्क अधिकारी,  
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद.





